

आर्डबॉटिक्स ने लेडी के. सी. राय मेमोरियल स्कूल में आठ दिवसीय रोबॉटिक्स कार्यशाला का आयोजन किया। पहले सत्र में कक्षा 6 और 7 के बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियादी अवधारणा, प्रोग्रामिंग और आर्डुइनो के बारे में सीखा। उन्होंने कम्प्यूटर से आर्डुइनो के इस्तेमाल से कई प्रयोग किये जैसे कई एल इ डी का जलाना, बजर से आवाज करना और डी सी मोटर का नियंत्रण। इसके बाद उन्होंने ऑटोनॉमस रोबॉट बनाया जो उनके दिये निर्देशों पर चल रहा था। इस तरह छात्रों ने अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित करना और आर्डुइनो के इस्तेमाल से स्मार्ट प्रोजेक्ट और उपकरण बनाना सीखा।

दूसरे सत्र में 8वीं और 9वीं के बच्चों ने सेंसर की बुनियादी अवधारणाओं जैसे लाईट सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर और एक्सेलेरोमीटर के बारे में सीखा। उन्होंने लाईट सेंसर से प्रकाश की तीव्रता को मापना और उसके इस्तेमाल से बर्गलर अलार्म बनाना सीखा। उसके बाद उन्होंने लाईट फॉलोइंग रोबॉट बनाया।

इतने बड़े पैमाने पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन राँची में पहली बार हुआ। इसमें 160 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया और 50 से अधिक रोबॉट बनाए। इसमें आए विशेषज्ञों के दल में हिमांशु बबलानी, प्रसन्न दत्त, श्वेतांक अम्बष्ट और विवेक तेजस्वी शामिल थे।